



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 1982/आश्विन 2, 1904
No. 170] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1982/ASVINA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 47-आई० डी० सी० (पी० एन०)/82

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1982

विषय: अप्रैल, 1982 मार्च, 1983 के लिए आयात निर्यात नीति

मिसिल सं० 6/103/82-ई० पी० सी० :- वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आई० डी० सी० (पी० एन०)/82, दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1982 मार्च, 1983 की यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियां नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों में की गई समझी जाएंगी :-

क्रम सं०	1982-83 की आयात-निर्यात नीति (का० 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
1	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानदंड क्रम सं० 3, कालम 2	निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :- "100% सहस्रत के कच्चे रेशम के बर/बनी हुई वस्तुएं/पोंशाकें (डुपियन से बनाए गए से भिन्न)
2	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानदंड	वर्तमान क्रम सं० 4 के बाव निम्नलिखित क्रम संख्याएं कालम-1 से 6 तक की प्रविष्टियों के साथ प्रागे जोड़ी जाएंगी :-

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे भाग का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमति मात्रा	कर-मुक्त लाभ के साथ अनुमति मात्रा
1	2	3	4	5	6
4 क	शहतूत मिश्रित रेशम बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं/पौशाकें जिनमें डुपियन यार्न मुख्य रूप से हों	(1) किसी भी श्रेणी की शहतूत का कच्चा रेशम (डुपियन यार्न से भिन्न)	कि०घ्रा० 1	कि०घ्रा० 0 30	कि०घ्रा० 0 28
		(2) डुपियन यार्न	—	1.10	1 07"
1	2	3	4	5	6
3.	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानवण्ड क्रम सं० 5	(1) कालम 2 में निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :— "नोइल रेशम के बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं/पौशाकें" (2) अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "टिप्पणी :—उपर्युक्त क्रम सं० 5 के मामले में कालम 6 में 1 19 कि०घ्रा० की दर पर अनुमति कर मुक्त लाभ के साथ नोइल यार्न के आयात की अनुमति निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त नोइल के 1 00 कि०घ्रा० के मद्दे की जाएगी।"		
4.	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानवण्ड क्रम सं० 6	(1) कालम 2 में निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :— "कते हुए रेशम के बस्त्र/बनी हुई मटे/पौशाकें" (2) निम्नलिखित टिप्पणी अन्त में जोड़ी जाएगी :— टिप्पणी :—"उपर्युक्त क्रम सं० 6 के मामले में कालम 6 में 1.11 कि०घ्रा० की दर पर अनुमति कर छूट लाभ के साथ कते हुए रेशम के धागे का आयात निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त कते हुए रेशम के 1.00 कि०घ्रा० के मद्दे किया जाएगा।"		
5.	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानवण्ड क्रम सं० 39 (क) नायलन टायर डोरी के साथ टायर	कालम 3 से 6 तक में मद (5) के मामले वर्तमान प्रविष्टियां संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएंगी :—		
			3	4 कि०घ्रा०	5 कि०घ्रा०
					6 कि०घ्रा०
		"(5) निम्नलिखित रंजक/रसायन :—	100	—	—
		(1) रबड़ रसायन (एन्टि-ऑक्सीडेंट्स, एक्सिलरेटर, रिटार्डर्स और पेपटाइजर्स)	—	2.00	2.00
		(2) जिंक आक्साइड	—	2 00	2 00
		(3) अन्य सभी विविध सामग्री/रसायन जैसे माइक्रोक्रिस्टेलिन बैकम, रंजक और मुबुकर, गन्धक, स्टिचरिफ एमिड विनायक	—	8.00	8 00

1	2	3	4
6	225	परिशिष्ट-29/अनुबन्ध 2 आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर-मुक्त आयात योजना भाग-क/मद सं 7	(1) कालम 2 में, निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा — कत हुए रेशमी वस्त्र/तैयार वस्तुएं/पीशाब' (2) अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी — टिप्पणी— भाग-क में मद सं 7 के मामले में कालम 5 में स्वीकृत किया गया कर मुक्त 1 11 कि०ग्रा० कता हुआ रेशमी धागा निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त 1 00 कि०ग्रा० कत हुए रेशमी धागे के मद्दे होगा।"
7.	255	परिशिष्ट-29 अनुबन्ध 2 आयात प्रति- पूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात योजना भाग-क मद सं 8	(1) कालम-2 में, निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा -- 'नायल रेशमी वस्त्र/तैयार वस्तुएं/पीशाब' (2) अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी -- टिप्पणी भाग-क में मद सं 8 के मामले में कालम 5 में स्वीकृत किया गया कर मुक्त 1 19 कि०ग्रा० नायल का धागा निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त कत हुए रेशमी धागे के 1 00 कि०ग्रा० के मद्दे होगा।"
8	255	परिशिष्ट-29 अनुबन्ध-2 आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात योजना भाग 'क' मद सं 16 कालम 2	निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्न लिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा -- "100 प्रतिशत शहतूत के कच्चे रेशम के वस्त्र/तैयार वस्तुएं/पीशाब (डुपियन से तैयार किए हुए वस्त्रों को छोड़कर)"
9	255	परिशिष्ट-29 अनुबन्ध-2 आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात योजना भाग "क"	वर्तमान मद सं 17 के बाद कालम 1 से 7 में प्रविष्टियों सहित निम्न- लिखित और मद शामिल की जाएगी --

"मद सं०	निर्यात उत्पाद का विवरण	परिशिष्ट-17 की सम्बद्ध मद सं०	कर मुक्त आयात के लिए स्वीकृत मदों का विवरण	कर मुक्त आयात के लिए स्वीकृत मदों की मात्रा	आयात प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	सम्बद्ध निर्यात उत्पाद की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
18	शहतूत के रेशम मिश्रित वस्त्र/ तैयार वस्तुएं/ पीशाब जिस में मुख्य रेश से डुपियन का धागा हों।	ध-7 (1)	(क) किसी भी किस्म का शहतूत का रेशम (डुपियन धागे को छोड़कर) (ख) डुपियन की धागा	0 28 1 07	20 प्रतिशत	1"

मणि नारायणस्वामी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 47-ITC (PN)/82
New Delhi, the 24th September, 1982

Subject : Import and Export policy for April, 1982—March, 1983.

File No. 6/103/82-EPC —Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1982—March, 1983, published under the Ministry of Commerce Public Notice No 16-JTC (PN)/82 dated the 5th April, 1982, as amended

2. The following amendments/corrections shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy 1982-83 (Vol. I).	Reference	Amendment/Correction		
1	2	3	4		
1.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/output norms Sl. No. 3 Column 2	The existing description of the export product shall be amended to read as under :— "100% Mulberry Raw Silk fabrics/made-ups/garments (other than those made of Dupion).		
2.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms	After the existing Sl. No. 4, the following further Sl. No. with entries in columns 1 to 6 shall be inserted :—		
"Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw-material	Qty. of Export Product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
1	2	3	4	5	6
4A	Mulberry mixed Silk fabrics/ made-ups/garments containing mainly Dupion Yarn.	(i) Mulberry Raw Silk of any grade (other than Dupion Yarn). (ii) Dupion Yarn	Kgs. 1	Kgs. 0.30 1.10	Kgs. 0.28 1.07"
3.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms Sl. No. 5	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— "Noil Silk fabrics/made-ups/garments." (ii) The following note shall be inserted at the end :— "Note : In the case of Sl. No. 5 above, import of Noil yarn with duty exemption benefit allowed at 1.19 Kgs in column-6 shall be against 1.00 Kg of Noil yarn used in the product exported."		
4.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms Sl. No. 6	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— "Spinn Silk fabrics made-ups/garments." (ii) The following note shall be inserted at the end :— "Note : In the case of Sl. No. 6 above, import of Spun Silk Yarn with duty exemption benefit allowed at 1.11 Kgs. in column 6 shall be against 1.00 Kg of spun silk yarn used in the product exported."		
5.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms Sl. No. 39 (a) Tyres with Nylon tyre cord.	The existing entries against item (v) in column 3 to 6 shall be amended to read as under :—		
		3	4	5	6
			Kgs.	Kgs.	Kgs.
		"(v) Pigments/chemicals, the following :	100		
		(1) Rubber Chemicals (Anto-oxidents, Accelerator, retarders and Peptisers)		2.00	2.00
		(2) Zinc Oxide		2.00	2.00
		(3) All other miscellaneous materials/ Chemicals viz. Microcrystalline wax, paraffin wax, pigments and softeners, sulphur, stearic acid, solvents.		8.00	8.00

1	2	3	4
6.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free import against Import Replenishment Licences PART A Item No. 7	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— "Spun Silk fabrics/made-ups/garments." (ii) The following note shall be inserted at the end :— "Note : In the case of item No. 7 in Part A, import of Spun Silk Yarn allowed duty free at 1.11 Kgs. in column 5 shall be against 1.00 Kg of Spun Silk Yarn used in the product exported."
7.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free import against Import Replenishment Licences. PART A Item No. 8	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— "Noil Silk fabrics/made-ups/garments." (ii) The following note shall be inserted at the end : "Note In the case of item No. 8 in Part 'A', import of Noil Yarn allowed duty free at 1.19 Kgs in column 5 shall be against 1.00 Kg of Spun Silk Yarn used in the product exported."
8.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free Import against Import Replenishment Licences. PART A Item No. 16 Column-2.	The existing description of the export product shall be amended to read as under :— "100% Mulberry Raw Silk fabrics/made-ups/garments (other than those made of Dupion)."
9.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free import against Import Replenishment Licences. PART A	After the existing item No. 17 the following further item with entries in columns 1 to 7 shall be inserted :—

"Item No.	Description of the export product	Relevant Sl. No. of Appendix 17	Description of items allowed for import duty free	Qty. of items allowed for import duty free	Import Replenishment Percentage	Qty. of relevant export product
1	2	3	4	5	6	7
18	Mulberry mixed Silk fabrics/made-ups/garments containing mainly Dupion Yarn.	K.7(i)	(i) Mulberry Raw Silk of any grade (other than Dupion Yarn). (ii) Dupion Yarn.	0.28 } 1.07 }	20%	1"

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

